

Tel: No.: 011-49539000

Fax No.: 011-49539099



राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद



Website.: www.urducouncil.nic.in

E-mail.: urducouncil@gmail.com

: urduduniyancpul@yahoo.co.in

National Council for Promotion of Urdu Language

Ministry of Human Resource Development
Government of India



Farogh-e-Urdu Bhawan

FC-33/9, Institutional Area

Jasola, New Delhi-110025

Dated: 15.06.2020

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की बड़ी उपलब्धि, परिषद के कंप्यूटर कोर्स को कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिली इससे उर्दू छात्रों के लिए सफलता के नए मार्ग खुलेंगे: डॉ शेख अक्रील अहमद

नई दिल्ली: उर्दू भाषा के छात्रों को कंप्यूटर और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उर्दू परिषद द्वारा उर्दू भाषा में कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग एवं मल्टीपल डीटीपी का एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। अब तक देश भर के लाखों छात्रों ने इसका लाभ उठाया है और इस प्रमाण पत्र के आधार पर, वे विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में रोजगार पाने में सफल रहे हैं। गौरतलब है कि उर्दू परिषद का यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाईलिट) चंडीगढ़ (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के सहयोग से चल रहा है और अब इस पाठ्यक्रम को कौशल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इस स्वीकृति के बाद इस पाठ्यक्रम को करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उर्दू परिषद के निदेशक डॉ शेख अक्रील अहमद ने कहा कि यह राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद की एक बड़ी उपलब्धि है और परिषद के कंप्यूटर पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्वीकृति मिलने के बाद ए इस कोर्स को करने वाले छात्रों के लिए सफलता का मार्ग खुल गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी परिषद के कंप्यूटर पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों के संस्थानों में नौकरी मिल जाया करती थी और अब सभी राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार प्राप्त करना संभव होगा। डॉ अक्रील अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद आरंभ से ही उर्दू दुनिया के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है और उर्दू परिषद के तहत संचालित कंप्यूटर कोर्स इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान में, उर्दू परिषद के देश भर में 500 से अधिक सेंटर चल रहे हैं जहां से एक लाख से अधिक छात्रों ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टीपल डीटीपी का कोर्स करके अपने करियर को आगे बढ़ाया है। डॉ अक्रील अहमद ने कहा कि परिषद उर्दू दुनिया को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और उर्दू छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं जिससे उर्दू भाषा के विकास के साथ ही, उर्दू दुनिया को कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए और उर्दू माध्यम में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए विकास और करियर के नए मार्ग प्रशस्त होने चाहिए।

(जनसंपर्क प्रकोष्ठ)